पत्रांक– 12/अ 5– 12/2009–...../

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक : निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राची।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र– 2, कम्युनिटी सेन्टर
प्रीत बिहार, विकास मार्ग
नई दिल्ली– 110092.

राँची, दिनांक...../

विषयः– **सनराईज द्वारिका एकडमी बैजनाथपुर, देवघर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सनराईज द्वारिका एकडमी बैजनाथपुर, देवघर से प्राप्त आवेदन (छायाप्रति संलग्न) पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन मात्र सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है। सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व बोर्ड अपनी मानक शर्तों को पूरा करने के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेगा। राज्य सरकार की शर्तें निम्नवत है:–

(i) विद्यालय प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व वर्गवार छात्रों की संख्या, शुल्क, नामांकन प्रक्रिया की पूर्ण सूचना देनी होगी।

(ii) दस प्रतिशत सीट राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी0पी0एल छात्रों के लिए अनिवार्य है। साथ ही, सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ही उन छात्रों से लिया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का एक प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक अनुदान देय नहीं होगा।

(iv) संस्था द्वारा नामांकन हेतु कोई कैपिटेशन फी/डोनेशन नहीं लिया जाएगा।

(v) विद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य होगी।

(vi) विद्यालय में निरीक्षण का अधिकार विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित पदाधिकारियों को पूर्णतः होगा।

(vii) विद्यालय में किसी भी तरह का शुल्क बढ़ाने से पूर्व उसपर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(viii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्यालय को प्राप्त आय का उपयोग किन–किन कार्यों में किया जाएगा, उसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी तथा उसकी स्वीकृति भी राज्य सरकार से लेनी होगी। साथ ही, प्रतिवर्ष विद्यालय को प्राप्त आय का अंकेक्षण कराकर उसके प्रतिवेदन की एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ix) शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों सहित शेष अन्य तरह के भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जाएगा।

(x) नामांकन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

(xi) यह संस्था राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत होनेवाले नियमों का अक्षरशः पालन करेगी।

कृपया

(xii) विद्यालय को जिस क्षेत्र विशेष के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है, उस क्षेत्र विशेष के अतिरिक्त किसी और जगह पर संबंधित विद्यालय की कोई अन्य शाखा नहीं खोली जाएगी। यदि खोली जाती है, तो उसके लिए अलग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य होगा ।

(xiii) एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

(xiv) यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र विद्यालय के आवेदन पत्र में अंकित स्थान विशेष के लिये है। यदि विद्यालय प्रबंधन स्थल परिवर्त्तन करता है अथवा इस विनिर्दिष्ट स्थल से अलग कोई विद्यालय की शाखा खोलता है तो, उसे पुनः राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(xv) यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरांत विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त/सिद्धांत का अवहेलना/उल्लघन की जानकारी प्राप्त होती है, तो जॉचोपरांत संबंधित विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द करते हुए सी0बी0एस0ई0 को अपनी मान्यता समाप्त करने हेतु सूचित कर दिया जाएगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक– 12/अ 5– 12/2009–2766/ रांची, दिनांक 5-9-09 /

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के परामर्शी/सचिव के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, राँची/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/प्राचार्य, सनराईज द्वारिका एकडमी बैजनाथपुर, देवघर/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/09
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

06432-222575